

Nagi mameng kari kavre?
Nagi - Tumhara
Mameng - Name
Kari - Kya
Kavre - hai

Forwarded

0:06 PTT-20200528-W... 05:55 ✓

Forwarded

आज का वाक्य / Sentence of the Day
क्षमा करें

ASSAMESE	क्या करे	Khyoma Koribo!
BENGALI	কথা করবেন	khyoma korbeni
BODO	কিমানহা হৌ	Nimaha hwi!
DOGRI	माफ़ करो।	Maaf karo
GUJARATI	માફ કરશો।	Maaf Karsho.
KANNADA	ಕ್ಷಮಿಸಿ	Kshama karibe!
KASHMIRI	مف دےجاء	mefi deejav
KONKANI	माफ करचे.	Maaf korchem.
MAITHILI	क्षमा करल जाओ।	Kshama kayal jao.
MALAYALAM	ക്ഷമയാ കർബ!	kshamyataam
ODIA	କ୍ଷମା କର।	Kshamaakarara.
MANIPURI	(ইবু) গাংকপগনি	(eibu) ngakpigan.
NEPALI	क्षमा गर्नुहोला	Chhama garnuhola!
SANSKRIT	इकान्तमे	ekakanme
SANTALI	माफ कजो	Maaf kajjo
TAMIL	மன்னிக்கவும்!	mannikkavum!

06:16 ✓

You deleted this message 06:16

Promote the spirit of #EkBharatShrethhaBharat by learning different languages.
#AajkaVakya for today is 'क्षमा करें'. This means 'Pardon' in English.
In manipuri- (eibu) ngakpigan

Type a message

Aaj Ka Vakya
Sentence - प्रवेश प्रतिबंधित है

ASSAMESE	প্রবেশ প্রতিबंधিত	Probesh protibandhit!
BENGALI	প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	probesh shimito kora hoyeche.
BODO	हाबनाया बन्द/माना।	Habnaia bondo/mana.
DOGRI	दाखला बजत ऐ।	Daakhla barzat ai
GUJARATI	પ્રવેશ પ્રાંતબંધિત છે.	Pravesh Pratibandhit Chhe.
KANNADA	ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ	Pravesh nishedhisiide
KASHMIRI	প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে।	yath jai chu achun manah
KONKANI	प्रवेश प्रतिबंधित आसा.	Provex protibandhit assa.
MAITHILI	प्रवेश वजित अछि।	Pravesh varjit achi
MALAYALAM	പ്രവേശനം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു	praveesanam niroodhiccarikkunnu
MANIPURI	প্রবেশ নিষেধ।	cangbada athingba lei.
MARATHI	प्रवेश प्रतिबंधित आहे.	Pravesh pratibandhit ahe.
NEPALI	प्रवेश निषेध छ।	Prawesh nished chhal
ODIA	ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ	Prabesha nishedha
PUNJABI	प्रवेश प्रतिबंधित है।	Parvesh Pratibandhit hai.
SANSKRIT	प्रवेश प्रतिबंधितोऽस्ति	praveshah pratibandhitosti
SANTALI	बोलन बरोन गेया।	Bolon Baron Geya

आज का वाक्य / Sentence of the Day

Sentence: मेरे पिताजी का नाम श्यामी है।
मेरी माताजी का नाम सरलाजी है।

ASSAMESE	মই পিতৃৰ নাম শ্যাম। মই মাতৃৰ নাম সৰলা।	Mur pitir naam Shyam/Mur matrir naam Sarala. amar babar nam Shyam/Amar mar nam Sorola.
BENGALI	আমার বাবার নাম শ্যাম। আমার মায়ের নাম সরলা।	Amri apani munga Chiam/angni aini munga Sorla
BODO	মই পিতা হুন্দা নাম শ্যাম। মই মাতৃ নাম সরলা।	Mere pita hunda nam Shyam ai/Meri maa hunda nam Sarla ai
DOGRI	मारे पितांनू नाम श्याम। मारी मातांनू नाम सरला।	Mara pitanu naam shyamji Chhe. Mari matanu naam saralaji chhe.
GUJARATI	મારું પિતાનું નામ શ્યામ છે. મારી માતાનું નામ સરલા છે.	Mara pitanu naam shyamji Chhe. Mari matanu naam saralaji chhe.
KANNADA	ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸರಲಾ.	Nanna tandeya hesaru Shyam/ Nanna taayiya hesaru Sarala
KASHMIRI	میں پیتا چو ناز شام جی۔ میں مائے چو ناز سارلا جی۔	menis mellis chu naaz shaaam ji / mayani majjisa chu naaz ji naaz.
KONKANI	मंज्या बापाचें नांव श्याम. मंज्या आवोचें नांव सरला.	Mhojea bapachem nanv Shyam. Mhoje avoichem nanv Sarla.
MAITHILI	हाम बाबुजीक नाम श्यामी अछि। हाम माताजीक नाम सरला अछि।	Hamura babujiaka naama shyamaji achhi/hamura maataajika naama saralaji achhi.
MALAYALAM	എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ശ്യാമ. എന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സരലാ.	Enraaccu hareperu/Shyamennanu/ enraammayu/Teperu Sarala ennaanu.
MANIPURI	মই পিতাৰ নাম শ্যাম। মই মাতৃৰ নাম সৰলা।	eigi apokpigi ming shyam kau-i/eigi apokpigi mingna sarala kau-i.
MARATHI	मंज्या बाबांचे नांव श्यामी आहे। मंज्या आवोचें नांव सरला आहे।	Maajhya baabaanche naav shyaamaji/maajhya aache naav saralaa ahe.
NEPALI	मेरो बाबाको नाम श्यामी हो। मेरी आमाको नाम सरला हो।	mero babako nam shyamji ho/meri aamako nam sarala ho.
ODIA	ମୋର ପିତା ନାମ ଶ୍ୟାମ। ମୋର ମାତା ନାମ ସରଳା।	Mora pitanka nama sheuchhi Shyamal/ mora matanka nama saralchi Sarala.
PUNJABI	ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਲਾ ਜੀ ਹੈ।	Men pita da naam shyaam ji hai/meri mata ji da naam sarla ji hai.
SANSKRIT	मम पिता नाम श्यामी। मम माता नाम सरला।	mam pitaha naam shyaami mam mataha naam saralaha
SANTALI	ଆମ ଆପୁନେ ନାମ ଶ୍ୟାମ। ଆମ ମାଆନେ ନାମ ସରଳା।	Amak apunene nam shyami kanan/Amak maanenu sarala kana/In Gonovauk autum sarala Kana.

KANNADA	ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು?	Nimma hesarenu?
KASHMIRI	তুমি কি নামে?	tuhdi bab / tha manhe hund nab kya chu
KONKANI	तुमचे नांव किदें ?	Tumchea nanv kidem ?
MAITHILI	अपके नाम अछि ?	Apnaka subha naam
MALAYALAM	നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ് ?	ningaluTe peenu entaanu?
MANIPURI	বাবাৰ নাম কি?	adomgi ming.
MARATHI	आपका नाम क्या है ?	Aapalashubhaav.
NEPALI	तपाईंको नाम अछि ?	tapaiako baba/amako nam ke ho?
ODIA	ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ?	Tumara pitamata naka nama kana?
PUNJABI	ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ?	Tuhada Shubh Naam?
SANSKRIT	आपका नाम किम् ?	bhavatah/bhavatyah naam kim?

SANTALI	ଆମକ ବିନାମ?	Anak bes natum?
SINDHI	تواری کي نام ڪهڻو؟	Tawhaan is shubh nak?

आज का वाक्य / Sentence of the Day

Sentence: क्षमा करें

ASSAMESE	কথা করিব।	Khyoma Koribo!
BENGALI	কথা করবেন।	khyoma korben!
BODO	কিমানহা হৌ।	Nimaha hw!
DOGRI	माफ़ करो।	Maaf karo
GUJARATI	માફ કરશો।	Maaf Karsho.
KANNADA	ಕ್ಷಮಿಸಿ	Kshamisi
KASHMIRI	مف دےجاء	mefi deejav
KONKANI	माफ करचे.	Maaf korchem.
MAITHILI	क्षमा करल जाओ।	Kshama kayal jao.
MALAYALAM	ക്ഷമയാ കർബ!	ennodu kshamikku
ODIA	କ୍ଷମା କର।	Kshyama karibe!
MARATHI	क्षमा करा.	Kshamaakarara.
MANIPURI	(ইবু) গাংকপগনি	(eibu) ngakpigan.
NEPALI	क्षमा गर्नुहोला!	Chhama garnuhola!
SANSKRIT	क्षम्यताम्	kshamyataam
SANTALI	इकान्तमे	ekakanme
SINDHI	माफ कजो	Maaf kajjo
TAMIL	மன்னிக்கவும்!	mannikkavum!
TELEGU	నన్ను క్షమించండి!	Nannu kshaminchandi
URDU	معاذ کریجیے	Maaf Kijiye

Aaj Ka Vakya/ Sentence of the Day

आपके पिताजी / माताजी का नाम क्या है ?

Assamese	আপুনাৰ পিতৃ/মাতৃৰ নাম কি?	Apunar pitri/matrir naam ki?
Bengali	আপনার বাবা/মায়ের নাম কি?	apnar baba/mar nam ki?
Bodo	মইৰ পিতাৰ নাম কি?	Nwngtangni bima/bipani munga ma?
Dogri	तुम्हाड़े पिताजी/मां दा केह नाम ऐ?	Thuade pitaji/maa da keh nam ai?
Gujarati	તમારા પિતાનું/માતાનું નામ શું છે ?	Tamara Pitanu/Matanu naam shu chhe ?
Kannada	ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ/ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಏನು?	Nimma tande/taayiya hesarenu?
Kashmiri	تواری کي نام ڪهڻو؟	tuhdi bab / tha manhe hund nab kya chu
Konkani	तुमच्या आवय/बापाचें नांव किदें आसा?	Tumchea aboi-bapachem nanv kidem assa?
Maithili	अपके बाबूजी/माताजीक नाम की कित?	Ahanka babujiika/matajika naam ki thik
Malayalam	നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ/അമ്മയുടെ പേര് എന്താണ് ?	ningaluTe acchanne/ammayuTe peeru entaanu?
Manipuri	বাবাৰ নাম কি?	adomgi apokpa/apokpigi ming kari kau-i?
Marathi	आपल्या वडील/आईचे नाव काय आहे ?	Aapalya vadilaanche/ aaiचे naav kaay ahe?
Nepali	तपाईंको बाबा/आमाको नाम के हो ?	tapaiako baba/amako nam ke ho?
Odia	ତୁମ ପିତା/ମାତା ନାମ କଣ ?	Tumara pita/mata nka nama kana?
Punjabi	ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ/ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ?	Tuhade Pita ji/Mata ji Da Ki Kau-i?
Sanskrit	आपका नाम किम् ?	Naam Hai? bhavatah/bhavatyah pitruvarayasya matruvarayasya-ah naam kim?
Santali	ଆମ ଆପୁନେ କେ ବାପ ବେତ କୁନୁ କାନା ?	Am apunum/ gao wak cet nutum kana?

Aaj Ka Vakya
Sentence - प्रवेश प्रतिबंधित है

ASSAMESE	প্রবেশ প্রতিबंधিত	Probesh protibandhit!
BENGALI	প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	probesh shimito kora hoyeche.
BODO	हाबनाया बन्द/माना।	Habnaia bondo/mana.
DOGRI	दाखला बजत ऐ।	Daakhla barzat ai
GUJARATI	પ્રવેશ પ્રાંતબંધિત છે.	Pravesh Pratibandhit Chhe.
KANNADA	ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ	Pravesh nishedhisiide
KASHMIRI	প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে।	yath jai chu achun manah
KONKANI	प्रवेश प्रतिबंधित आसा.	Provex protibandhit assa.
MAITHILI	प्रवेश वजित अछि।	Pravesh varjit achi
MALAYALAM	പ്രവേശനം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു	praveesanam niroodhiccarikkunnu
MANIPURI	প্রবেশ নিষেধ।	cangbada athingba lei.
MARATHI	प्रवेश प्रतिबंधित आहे.	Pravesh pratibandhit ahe.
NEPALI	प्रवेश निषेध छ।	Prawesh nished chhal
ODIA	ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ	Prabesha nishedha
PUNJABI	प्रवेश प्रतिबंधित है।	Parvesh Pratibandhit hai.
SANSKRIT	प्रवेश प्रतिबंधितोऽस्ति	praveshah pratibandhitosti
SANTALI	बोलन बरोन गेया।	Bolon Baron Geya
SINDHI	दाखिल थियनु नका आहे	Daakhil thiyanu mana aathe
TAMIL	நுள்வெட்டி தடை.செய்யப்பட்டுள்ளது.	nuzhavu taTaiceyappaTTuL.Latu.
TELEGU	ప్రవేశం నిషేధం	Pravesham nishiddam
URDU	دخول ممنوع	Dakhila Mamnu Hai